

प्रेस नोट

***थाना गजरौला पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का खुलासा कर 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई मोटर साइकिल बरामद* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांग्हे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा के निकट पर्यवेक्षण में थाना गजरौला पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का खुलासा कर 02 शातिर वाहन चोर मय चोरी की हुई मो0सा0 सहित गिरफ्तार किये गये ।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 04.08.2022 को थाना गजरौला पुलिस द्वारा सूचना पर नेशनल हाईवे 9 पर बन्द पडे मधुबन ढाबे के पास चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे 02 शातिर वाहन चोर 1. भूरा पुत्र लियाकत व 2. अलाउद्दीन पुत्र यूसूफ सैफी निवासीगण नयी बस्ती कस्बा व थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक स्पलैन्डर प्लस मो0सा0 (बिना नम्बर प्लेट) व चोरी में प्रयुक्त एक प्लसर मो0सा0 रजि0न0 UP14EX 7596 व नम्बर प्लेट बरामद हुई ।

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बरामद चोरी की हुई स्पलैन्डर प्लस मो0सा0 (बिना नम्बर प्लेट) रजि0न0 UP23AE 3528 को दिनांक 02.08.22 की शाम ग्राम काकाठेर में एक घर के बाहर से चोरी करने तथा वाहन स्वामी व पुलिस को धोखा देने की नियत से स्पलैन्डर मो0सा0 की नम्बर प्लेट हटाकर प्लसर मो0सा0 की सीट के नीचे छिपाना बताया गया उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना गजरौला पर मु0अ0सं0 434/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है । थाना गजरौला पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



***गिरफ्तार अभियुक्तगण*-**

1. भूरा पुत्र लियाकत निवासी नयी बस्ती कस्बा व थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
2. अलाउद्दीन पुत्र यूसूफ सैफी निवासी नयी बस्ती कस्बा व थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।

***बरामदगी का विवरण*-**

1. स्पलैन्डर प्लस मो0सा0 (बिना नम्बर प्लेट) रजि0न0 UP23AE 3528
(सम्बन्धित मु0अ0सं0 434/22 धारा 379 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
चेसिस नं0- MBLHSW114LHK65326, इंजन नं0- HA11EVLHKA4818
2. चोरी में प्रयुक्त प्लसर मो0सा0 रजि0न0 UP14EX 7596

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. निरीक्षक राजेन्द्र सिंह पुंडीर थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. का0 993 मौ0 शोयब थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. का0 787 विकास कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
4. का0 278 अरुण कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
5. का0 1149 दीपक कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA